



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2014/पौष 20, 1935

No. 08]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2014/PAUSHA 20, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 10(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी, बारापानी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी बारापानी, में अपर निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना.**—ये नियम इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**—वह व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अपर निदेशक	*1* 2014 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 8900 रु.	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:-</p> <p>(क) वेतन बैंड-4 (37400-67000 रु.) + ग्रेड वेतन 8900 रु. में भारतीय पुलिस सेवा से पुलिस उप महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी; या</p> <p>(ख) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी:-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक या कमांडेंट या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के सहायक पुलिस महानिरीक्षक के रैंक का ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-4 (37400-67000 रु.) + ग्रेड वेतन 8700 रु. में दो वर्ष नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iii) वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) + ग्रेड वेतन 7600 रु. में सेक्रेटरी-इन-कमान (2i/c) के रैंक में या समतुल्य पद के ऐसे अधिकारी जिन्होंने छह वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हता है:-</p> <p>नीति बनाने में प्रशासन योजना, कार्यकारी और स्थापना के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1:-प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है प्रारंभ में तीन वर्ष जिसे पाँच वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2:-प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3:-प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से</p>	लागू नहीं होता	किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह पूर्वलाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		
---	--	--

[फा. सं. 23012/130/2010—पीसी]

प्रशांत निकम, निदेशक (पुलिस)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2014

G.S.R. 10(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Police Academy, Barapani (Group 'A' posts) Recruitment Rules 1981, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Additional Director in the Ministry of Home Affairs, North Eastern Police Academy, Barapani, Shillong, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, North Eastern Police Academy, Barapani, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classifications the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule are exist to these rules.

5. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may in consultation with the Union Public Service Commission by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, the ex-serviceman, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale
(1)	(2)	(3)	(4)
Additional Director	1* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-4 ₹37400-67000 plus grade pay of ₹ 8900

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruit	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	By deputation	<p>Deputation.—</p> <p>(a) Officers from the Indian Police Service of the rank of Deputy Inspector General of Police in the PB-4 (₹37400-67000) and Grade pay of ₹ 8900; or</p> <p>(b) Officers of the Central Government/State Governments or Union territories.-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) Officers in the rank of Senior Superintendent of Police or Commandant or Assistant Inspector General of Central Government or State Governments or Union territories with two years regular service in the Pay Band-4 (₹37400-67000) and Grade pay of ₹ 8700; or</p> <p>(iii) Officers in the rank of Second-in-Command (2i/c) or equivalent post in the pay band-3 (Rs. 15600-39100) and Grade pay of Rs. 7600 with six years regular service; and possessing of the following experience;</p> <p>Experience of 12 years in the field of administration, Planning, execution and establishment in Policing.</p> <p>Note 1.—Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations/department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2.—The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3.—For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than</p>

		on pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.
--	--	--

If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing officer on deputation.

[F. No. 23012/130/2010-PC]

PRASHANT NIKAM, Director (Police)